



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग  
नई दिल्ली-110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (Hqrs.)  
18, INSTITUTIONAL AREA, SJS MARG  
NEW DELHI - 110 016  
Ph. 26858570 Fax - 26514179  
www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-Acad0338T(4)/1/2018-Academic

Speed Post/E-mail  
Dated: 9-10-2018.


### कार्यालय ज्ञापन

**विषय: Review of Expenditure on Working Lunch for participants of various In-house training programmes**

The Advisory Committee of KVS for ZIETs 2018 has reviewed the rate of expenditure on Working Lunch for participants of various training programmes, including in-service courses and short duration workshops. The competent authority has approved the revision of the expenditure on Working Lunch (inclusive of lunch and two times tea and snacks) from Rs. 150/- (Rupees one hundred fifty only) to Rs. 300/- (Rupees three hundred only) per participant per day for the In-service courses, Workshops, Seminars, Short duration courses and other courses irrespective of course title, organized by KVS.

The expenditure on working lunch will be booked out of "contingency" under the non-plan budget.


This issues with the approval of the competent authority.

  
(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

वितरण:

1. The Joint Commissioner, (Admn.)/(Pers.)/(Fin.)/(Acad.) KVS(HQ), New Delhi.
2. The Dy. Commissioner / Director, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
3. The Dy. Commissioner (Acad/EDP), New Delhi-with the request to upload this circular on KVS website [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in) – Announcements & Training.
4. CS to Additional Commissioner (Admn./Acad.), KVS(HQ), New Delhi.
5. Guard File.

  
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

Sh. PK B. P.  
Circulate to all KVS  
ZIET BBSR & RO staff/officers  
for information & mai. STO  
परी 01/09/18/2018  
R  
9/10